

# LOOK N LEARN

Vol No. 14 • Issue No. 01 • Mumbai • January 2023 • Price : Rs 5/- (Multilingual Monthly)

BUY 1 GET 1 FREE

HURRAY!

BIG SALE

SHOP NOW

ARE YOU READY CHILDREN?



Didi : Children, do you all enjoy festival offers or gifts that come for free?

Arham : Yes didi, we all do!

Didi : But children have you noticed... all that comes for free is not worth!

Soham : What does that mean didi?

Didi : Many times we may get damaged, old product or products that have passed expiry dates in offers.

Soham : Is it didi?

Didi : Yes, it may be and also not all offers that we get or we buy are suitable for our well being!



दीदी : बच्चों, क्या आप सभी त्योहारों के ऑफर या मुफ्त में मिलनेवाले उपहारों का आनंद लेते हैं?

अर्हम : हाँ दीदी, हम सब लेते हैं!


दीदी : लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है की मुफ्त में मिलनेवाली हर वस्तु का महत्व नहीं होता है!

सोहम : इसका क्या मतलब है दीदी?

दीदी : कई बार हमें पुराना, बिघड़ा हुआ या टुटा हुआ सामान जो ऑफर में एक्सपायरी डेट पार कर चूका है वैसा मिल सकता है!

सोहम : दीदी सच में?

दीदी : हाँ, यह संभव है और हमें मिलनेवाले या खरीदनेवाले सभी प्रस्ताव हमारे लिए हितकारी हो ऐसा जरूरी नहीं।



Arham : Offers and well being? what type of offers didi please can you explain us?

Didi : There are few of your acts where you buy certain emotions and willingly or unwillingly you get a reward free! A reward can be negative or positive depending on your act or the way you respond and also the emotion involved.

Eg. What if your friend cheated upon you, what will you do?



अर्हम : ऑफर और हितकारी? दीदी किस प्रकार के ऑफर क्या आप हमें समझा सकती हैं ?

दीदी : आपके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ आप कुछ भावनाओं को खरीदते हैं और स्वेच्छा से या अनिच्छा से आपको इनाम मुफ्त में मिलता है!

आपके कार्य-प्रतिक्रिया और उनमें शामिल आपकी भावनाओं के आधार पर उसका इनाम - नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है।

उदा. अगर आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया तो आप क्या करेंगे ?

Arham : Didi I will loose my temper and get angry.

Didi : Arham, this is the offer that I am talking about...  
What happens after you get angry?

Soham : Didi we often get headaches and acidity...

Didi : Correct! so tell me children was the offer of buying anger good for your well being? Do you like such offers? Where you buy anger and get headaches free! Where you buy any negative emotion and get bad health free?



अर्हम : दीदी मैं गुस्सा हो जाऊँगा।

दीदी : अर्हम, मैं इसी ऑफर की बात कर रही हूँ।  
आपको गुस्सा आने के बाद क्या होता है ?

सोहम : दीदी हमें अक्सर सिर दर्द और एसिडिटी हो जाती है।

दीदी : ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या गुस्से को खरीदने का प्रस्ताव तुम्हारे लिए हितकारी था? क्या आपको ऐसे ऑफर पसंद है? जहाँ आप क्रोध खरीदते हैं और सिर दर्द होता है! आप कोई नकारात्मक भाव खरीदते हैं और खराब स्वास्थ्य पाते हैं?



Arham : No didi we don't like such offers. Instead we only like offers that are beneficial to us in all ways. Then didi how shall we handle such negative situations?

Didi : There are many ways...

By responding and not reacting, by forgiving by staying calm, by communicating with your friend about the situation or by letting go...

Soham : Yes didi we can at least try them. Didi tell us more about such offers...

Didi : Soham, many times knowingly or unknowingly we buy such offers and get problems along with them free.

अर्हम : नहीं दीदी हमें ऐसे ऑफर पसंद नहीं हैं। हम केवल ऐसे ऑफर्स को पसंद करते हैं जो हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद हों। तो दीदी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति को कैसे संभालेंगे?

दीदी : बहुत से रास्ते हैं... प्रतिक्रिया न देकर, क्षमा करके, शांत रहकर, अपने दोस्त से स्थिति के बारे में बात करके, माफ करने से...

सोहम : हाँ दीदी, हम कोशिश अवश्य कर सकते हैं। दीदी हमें ऐसे ऑफर्स के बारे में और बताएँ...

दीदी : सोहम, कई बार जाने-अनजाने में हम ऐसे ऑफर्स खरीद लेते हैं और साथ में प्रोब्लम्स भी हो जाती हैं।



Let us have a look at  
such unsuitable and undeserving

offers...



If you buy **fear** (if you are fearful) **BUY** →



← You get **abdominal cramps** free



I will be as brave as my Parmatma Mahavir

If you buy **Criticism** (if you criticize) **BUY** →



← You get **joint pains** free



I will appreciate others for their good qualities

If you buy **stress** **BUY** → You get **digestive disorders**  
& **low immune system** free



I am a peaceful soul

If you buy **Hatred** **BUY** → You get **ulcers** free




I comfortably forgive and forget all

If you buy **jealousy** **BUY** → You get **chest pain, weight gain or gastrointestinal issues** free




I am happy and contented with all that I have

If you buy **frustration** **BUY** → You get **lack of concentration** free






The past is over and the future is yet to come so just live in present

If you buy **lie**  You get **distrust** free



## I will follow 5 mahavrat

Right Knowledge, Right Faith, and Right Conduct are the three most essentials for attaining **Moksh**. In order to acquire these, one must observe these 5 great vows:






# परम गुरु वाणी



गुरु की जीवन में होती हैं **ENTRY**,  
तब...

अवगुण **EXIT** होना शुरू हो जाते हैं।

*-Gurubhakt Mehta Parivar*



On the other hand if you buy positive emotions you get positive and good offers like...

**Best OFFERS**

If you **forgive**

You get **peace**

Everyday before going to sleep I will say **SORRY** to all

**Best OFFERS**

If you buy **Peace**

You get **prosperity free**

I will always keep smiling and spread a smile to all


जो क्षमा कर देता है  
वह सिद्ध बन जाता है।  
Forgiveness is the  
ladder to liberation



एक बार मेघमाली असुरदेव, ध्यानस्थ पार्श्वप्रभु को देखकर उनका पूर्व भव का वैर जाग गया। उन्होंने सिंह, हाथी, चीत्ता, सर्प आदि रूप बनाकर अनेक उपसर्गो से परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने मूसलधार वर्षा प्रारंभ की और देखते ही देखते परमात्मा की गर्दन तक पानी चढ़ गया किंतु जब मेघमाली परमात्मा का ध्यान भंग करने में असफल हुए तब उन्होंने परमात्मा के चरणों में क्षमा माँगी।

**करुणा के सागर परमात्मा ने मेघमाली को क्षमा किया।**

On seeing compassionate Shree Parshvanath Bhagwan, Meghmali remembered the enmity of their past life. He transformed himself into a lion, elephant, cheetah, snake etc and tried to scare Parmatma. But he failed. Finally he started pouring torrential rains and the water reached till Parmatma's neck. At last when he failed in disturbing Parmatma from His Dhyana, Meghmali surrendered at the lotus feet of Parmatma and asked for forgiveness.



**The Benevolent Paramatma forgave  
Meghmali.**



Best OFFERS

If you buy **Honesty**

You get **trust** free

Honesty promotes authenticity, fosters courage and makes you more reliable and trust worthy. You get sound sleep and a peaceful mind.



Best OFFERS

If you do **Seva, Vaiyavach**

You bind **punya**

I will always be ready for any kind of Seva/Vaiyavach that is offered to me

एक छोटा सा गाँव था। गाँव में एक गरीब बालक रहता था। त्यौहार के दिन उसे खीर खाने का मन हुआ। उसने अपनी माँ के पास खीर खानेकी ज़ीद की। माँ के पास पैसे नहीं थे। इसी लिए वह पड़ोस से चावल और दुध माँग कर ले आई और खीर बना दी।

इतने में एक महाराज साहेब मासक्षमण के पारणे पर गोचरी व्होराने बालक के घर पधरें। तुरंत बालकने खीर की थाली में ऊँगली से रेखा बनाकर दो भाग कर खीर व्होराने लगा और उसने भाव से पुरी खीर व्होराई और फीर साधु भगवंत वहाँ से चले गए। बालक खीर की थाली को चाटने लगा और अंदर से खुश हो गया के मैंने कितना अच्छा कार्य किया। थोडी देर में माँ ने पूछा खीर कैसी थी? तब बालक ने कहा, "बहुत ही स्वादिष्ट ...!!"

इस बालक का नाम था संगम गोवाल और अगले भव में उसका धनवान शेट के बेटे के रूप में जन्म हुआ। जिसका नाम था शालिभद्र। इतना धनवान होने के बावजूद शालिभद्र ने दीक्षा ली और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हुई।




Once upon a time a small poor child lived in a village. Once, during a festival he wished to have kheer. He insisted his mother to make kheer for him. She did not have money to buy the ingredients but somehow she managed to borrow them from neighbors and fulfilled her son's wish of having kheer.

In the meantime, a saint entered his house for parna of Massakshman. Happily, the child drew a line with his finger in the plate of kheer and poured the kheer with great bhaav and then the saint left. The child started licking the plate of kheer and was very happy for good work he had done. After sometime mother asked how was the kheer? Then the boy said, "Very tasty...!!"

This child's name was Sangam Goyal and in the next life he was born as the son of a wealthy Sheth, Shalibhadra. Despite being so rich, Shalibhadra took Diksha and then attained salvation.

जब कोई साधु भगवंत आपके घर पधरें तब आपके गोचरी व्होराने की भावना करनी चाहिए। सुपात्र दान की भावना से हमें देवगति या मोक्ष प्राप्त होता है

Dear children, when a sadhu Bhagwant visits your home, then you should offer your offerings with great bhaav. With the spirit of offering, we can attain Dev gati or salvation.



Daily 5 minutes of Gratitude a day will change your life -

Try it!



If you show **Gratitude**

**Best OFFERS**

You get **positivity** free



Gratitude will improve physical - psychological health.  
It enhances empathy and reduces aggression.  
Gratitude improves self-esteem.



If you **Tolerate**

**Best OFFERS**

You can become **SIDDHA**



Everything happens as per my karma



Forbearance of Parmatma Mahavir

## परमात्मा महावीर की शहनशीलता

एक बार परमात्मा महावीर स्वामी के कानों में एक ग्वाले ने कांस नामक घास की नुकीली कीले आरपार ठोक दी। इस असह्य वेदना देने वाले ग्वाले को परमात्मा ने क्षमा किया और इस वेदना का कारण अपने पिछले जन्म में किये हुए कर्मों का फल समजा!

बच्चों तो क्या परमात्मा कमजोर थे? नहीं, जो माफी देता है, जो दूसरों को माफ कर देता है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है।

Once a shepherd had pierced Bhagwan Mahavir's ear with a sharp nail like tip of the kansa grass! Yet Bhagwan Mahavir forgave the shepherd. He knew that the reason for one's own sufferings is his own past karma.

Kids, So, was Parmatma weak? No, the one who forgives is the strongest of all.

I will learn to forgive and forget like my Parmatma

Instead of reacting I will respond



If you choose **Letting Go**  
You get **Compatibility free**



**Best OFFERS**

I am at peace and comfortable in every area of my life.  
I am strong and capable.



If you show **Compassion**  
You get **universal friendship**



**Best OFFERS**

*Ahimsa Parmo Dharma. The practice of Compassion results in numerous benefits for the giver as well as the receiver of Compassion.*



# Compassionate Parmatma Mahavir

चण्डकौशिक नाम के दृष्टिविष सर्प ने भगवान को बारबार अपनी विषपूर्ण ज्वालाएँ डाली और भगवान के पैर के अँगुठे में डंख मारकर उनके सामने देखने लगा।

भगवान शांत रहे भगवान के दिल में करुणा थी और सर्प को हिंसा से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कहा... **“बुज्झ बुज्झ चण्डकौशिक!”** चण्डकौशिक शांत हो गया और उसको अपने पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया।

वह भगवान के चरणों में जा पड़ा। उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ और उसने हिंसा का त्याग कर दिया। अन्त में अनशन उपवास की आराधना द्वारा मृत्यु पाकर सर्प वैमानिक देव योनि में उत्पन्न हुआ।

A sight-poisonous snake named Chandkaushik repeatedly threw its poisonous flames at Parmatma and looked at Parmatma after stinging His big toe.

Parmatma with peace and compassion in his heart, wanted snake to be free from violence. He said...


**"Bujjh bujjh Chandkaushik!"** Chandkaushik became calm and he remembered his previous birth.


He fell to the feet of Parmatma. He repented and gave up violence. In the end, after getting death by fasting and worshiping, the snake was born in the form of Vaimanik Dev.

बच्चों ! हमे भी भगवान जैसा बनना है। हमें दूसरों की भलाई के लिए अपने दिल में करुणा रखनी चाहिए और सर्प के जैसे अपनी गलती पर पश्चाताप करना सिखना चाहिए।

Children! We also have to become like Parmatma. We should have compassion in our heart for the well being of other jivs and repent for our mistakes.

COMPASSION





Can we bet?



Think? Think? Think?

Can we surely say to Parmatma that...

"O Parmatma that day is not far when

I will recite with You in Your home

and I will be one with You"?





IS OUR  
LIFE  
STYLE  
SUCH???





Put a Tick on the activities that will connect you to Parmatma ✓





Often excited with offers? But be alert while encashing it...

*Parmatma says...*

॥ एतदेवेगेसिं ॥  
महभयं भवइ । ॥

परिग्रह महाभय का कारण है।

श्री आचारंग सूत्र, अध्याय ५- उद्देशक २, गाथा-३